



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

00AB 728364

पंचानन सिंह जीप्ता एवं जन कल्याण संस्थाने  
 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जिले में  
 जंगल धुशान रोड गोरखपुर  
 के साथ सम्बन्ध है




*Bumar*  
 PRINCIPAL  
 P.N. National Public School  
 Jungle Dhushan, Gorakhpur

सहायक निदेशक  
 उत्तर प्रदेश, गोरखपुर  
 23/11/10

*Deep*  
 Manager  
 P.N. National Public School  
 Jungle Dhushan, Road Gorakhpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

00AB 728365

पंचाना सिंह (पुत्र) एवं पुत्र चरणसिंह सहाय  
ड.र. दुमरापुर दारुणिका औरांग जिला के मुख्य अधिकारी  
कमरापुर (जी.पिन) 630  
जि.प.आ.वे.ली



*Pruman*  
PRINCIPAL  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

*H*  
सहायक जिला दारुणिका  
कमरापुर  
23/11/10

*Supal*  
Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur




## स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : पंचानन सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : 31-ए, हुमायूँपुर दक्षिणी, ओवरब्रिज, पो0 मुख्य डाकघर तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर (उ0 प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था का स्वरूप : शैक्षणिक / सामाजिक
5. संस्था के मुख्य उद्देश्य :
  1. प्राइमरी से उच्च स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन करना।
  2. सामाजिक विकास सम्बन्धित कार्यों को करना।

### अन्य उद्देश्य

1. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संस्था के माध्यम से शिक्षा के विकास के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत की स्थापना करना तथा प्राथमिक स्तर, जूनियर हाईस्कूल, माध्यमिक इण्टरमीडिएट एवं महाविद्यालय एवं उच्च स्तर की शिक्षा का संचालन करना। विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कन्या महाविद्यालय की स्थापना करना।
2. वन एवं पर्यावरण संरक्षण तथा वन के अन्दर एवं बाहर बसने वाले गाँवों का आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान और वन्य जीवों का अध्ययन एवं संरक्षण करना।
3. समाज के अल्पसंख्यक, पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की बालक-बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण जैसे कम्प्यूटर, हार्डवेयर, साफ्टवेयर, स्क्रीन प्रिंटिंग, डाटा प्रोसेसिंग, डी0टी0पी0, सिलाई कढ़ाई, बुनाई पैन्टिंग, फल संरक्षण रेक्सीन कला, गृह सज्जा, आचार मुरब्बा, माचिस, पत्तल, अगरत्ती, मसाला ब्यूटी पार्लर की जानकारी देना।
4. खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प, कला चमड़ा उद्योग रेक्सीन कला से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना तथा समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का सफल बनाने का प्रयास करना।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा पेयजल, नाली, सीवर की व्यवस्था करना व मलिन बस्तियों सहित अन्य क्षेत्रों की सफाई का कार्य करवाना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रचार-प्रसार करना तथा आवास बनवाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करना।
6. समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करना। नाट्यमंच व चलचित्र द्वारा लोगों को शिक्षा के बारे में निःशुल्क ज्ञान करवाना।
7. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारण्टी योजना शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।
8. संस्थान में प्राकृतिक शिक्षा की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से छात्र जीविका निर्वाह की समस्या स्वतः समाधान कर सके।
9. शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यों को सम्पादन करना तथा इन लोगों के रहने के लिए आश्रम बनवाना।
10. बाल श्रम विद्यालय, शिक्षा प्रशिक्षण की स्थापना करना तथा योग का प्रशिक्षण करना तथा निःशुल्क विधिक परामर्श देना।



*Rumar*  
PRINCIPAL  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

*H*  
सहायक शिक्षक  
सो. इ. टी. ज. तथा वि. टी.  
ग. प. गोरखपुर

क्रमशः.....2  
Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



(2)

11. विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान
12. संस्था के माध्यम से सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना।
13. कृषि विकास हेतु कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों को प्रचार-प्रसार करना, आधुनिकतम विकसित तरीके से कृषि, दुग्ध विकास के क्षेत्र में जानकारी देना।
14. औषधि कार्यों के लिए जड़ी बुटियों, जैविक खेती के बारे में लोगों की जानकारी देना व जैविक खाद विस्तार कार्यक्रम के द्वारा जैविक खातों एवं ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, जेट्रोफा के पौधे से डीजल बनाने के बारे में लोगों को जानकारी देना व जेट्रोफा के पौधों की खेती करना।
15. परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गाँवों में व्यापक स्तर पर निःशुल्क संचालित करना, टीकाकरण जैसे पल्स पोलियो, हेपेटाइटिस, फाइलेरिया, मलेरिया, क्षय रोग, एड्स, कैसर, टी0वी0, धमार्थ डिस्पेन्सरी कुछ क्षेत्रीय बीमारियों के रोकथाम के लिए प्रचार व प्रसार करना व जानकारी देना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना तथा मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार निःशुल्क करना व रेडक्रास सोसायटी की योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण को जानकारी मुहैया करना तथा होमियोपैथिक से सम्बन्धित दवाओं एवं जानकारी का निःशुल्क सुविधा मुहैया कराना।
16. कृषि कार्य हेतु विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड के कार्यों व कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रसार प्रचार करना।
17. समाज में व्याप्त छूआछुत, ऊँच-नीच तथा जाति धर्म की विषमता की निर्मूल करने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना।
18. शराब व मादक पदार्थों का नशा करने वालों की लत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करना और उन कार्यक्रमों को सफल बनाना।
19. पर्यावरण को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना एवं इस पर शोध कार्य करना।
20. अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
21. प्रदेश के विभिन्न जनपदों के संस्था के माध्यम से उच्च तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना।
22. जल संरक्षण, जल संचयन, जलचक्र एवं जल संसाधन तथा स्वजलधारा से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना एवं जल प्रदूषण के खिलाफ गोष्ठी, शोध केन्द्रों की स्थापना करना।
23. नदियों के गन्दें नालों तथा कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसके लिए सम्बन्धित विभागों की अनुमति से करना। छोटे पोखरों एवं तालाबों के सुन्दरीकरण के लिए कार्य करना।
24. देवी आपदा, बाढ़ भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग जैसी विभिन्न बीमारियों, महामारी व विभिन्न सेवा करना।

क्रमशः.....3

*Bunmar*  
PRINCIPAL

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

*[Signature]*  
नहायक शिक्षा  
की सोसाइटी तथा चिट्ठे  
के तहत

*[Signature]*  
Manager

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



(3)

25. संरक्षित जीव जन्तुओं व पशु पक्षियों का संरक्षण करना व उनका अवैध शिकार पर रोक लगाना।
26. जानवरों के चारागाह हेतु नियमानुसार भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना, तथा जानवरों के प्राकृतिक रूप से चारागाह की व्यवस्था की जा सके।
27. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों तथा उ० प्र० सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों व सरकारों और विदेशी संगठनों द्वारा एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देना।
28. जीव जन्तुओं के प्राकृतिक निवास स्थलों को नष्ट होने से बचाना तथा उनको क्षति पहुँचाने वालों से बचाना।
30. निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय, अनाथालय हास्टल का प्रबन्ध करना।
31. खेलों को बढ़ावा देना खेलों के प्रति गाँवों एवं शहरों में अभिरुचि पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना तथा पार्कों की व्यवस्था करना।
32. बेरोजगारी दूर करने की नियत से महिलाओं को आचार, मुरब्बा, बिस्कुट, नमकीन, कर्क, अगरबत्ती, माचिस पत्तल, पापड़ जैम जैली बनाने का प्रशिक्षण दिलाकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर करना।
33. दहेज प्रथा, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।
34. बाल विकास एवं बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ, आई०एल०ओ०, यूनोडो, सिडवी, नवार्ड, कपार्ट, यूनिसेफ एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर कंधे से कंधा मिलाकर योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना एवं मानव संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित कार्यक्रमों की जानकारी देना।
35. फूलों एवं फलों की खेती तथा बागवानी बोर्ड एवं पेड, पौधों से सम्बन्धित जानकारी जन मानस तक पहुँचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
36. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना एवं विज्ञान भवनों की स्थापना करना।
37. विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, विद्यालय आश्रम, पद्धति विद्यालय व आवासीय/अनावासीय विद्यालयों व शोध संस्थानों की स्थापना करना एवं निःशुल्क संचालन करना।
38. आम जनता के उपयोग के लिए धर्मार्थ कम्प्यूनिटी हाल, बारातघर, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, अनाथालय, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियों रात्रि निवास, शार्ट स्टे होम, मूक बधिर, कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
39. बालिकाओं-महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आक्रमण की रोकथाम हेतु युवतियों को आवश्यक जानकारी देना, अविवाहित माता, विधवा, पारिवारिक हिंसा/दहेज प्रथा दहेज पीड़ित से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी करवाना एवं सामूहिक विवाहों को करवाना।
40. जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों के सहयोग प्रदान करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के बारे में व्यक्तियों को जागरूक करना।

क्रमशः.....4

*Rumar*  
PRINCIPAL  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

*Manager*  
Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



(5)

5. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता तथा जिसको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है :-

क्र०सं०	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र पंचानन सिंह	31-ए, हुमायूँपुर दक्षिणी ओवरब्रीज रोड जिला-गोरखपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री हरिहर सिंह पुत्र स्वामीनाथ सिंह	ग्राम पिपरा गदन गोपाल, टोला महुआबारी, जिला-देवरिया	उपाध्यक्ष	व्यवसाय
3.	श्रीमती कमला सिंह पत्नी ओम प्रकाश सिंह	31-ए, हुमायूँपुर दक्षिणी ओवरब्रीज रोड जिला-गोरखपुर	प्रबन्धक/ सचिव	गृहिणी
4.	श्री रमेश सिंह पुत्र पंचानन सिंह	ग्राम बेलवा बुजुर्ग पो० महुआ कारखाना जिला कुशीनगर	उप प्रबन्धक/ उप सचिव	समाजसेवा
5.	श्रीमती मालती सिंह पत्नी नथुनी सिंह	ग्राम व पो० सोहंग जिला-कुशीनगर	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
6.	डा० रामनरेश सिंह पुत्र कुमार सिंह	मानस बिहार कालोनी, जिला गोरखपुर	सदस्य	भूतपूर्व चिकित्सक
7.	श्री रामचन्द्र पुत्र पुजन	ग्राम जंगल धूसड़, टोला रेतवहिया पो० जंगल धूसड़, गोरखपुर	सदस्य	कृषि
8.	श्रीमती विद्यावती सिंह पत्नी गंगादयाल सिंह	गा० व पोस्ट लछिया जिला-कुशीनगर	सदस्य	गृहिणी
9.	श्री हुकूम चन्द खरवार पुत्र श्री परमहंस खरवार	ग्राम रामपुर मीर, पो० पतरेंगवाँ जिला-महाराजगंज	सदस्य	व्यवसाय

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति-पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसायटीज रजि० 21 सन् 1860 के अन्तर्गत सोसायटीज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।

दिनांक- 2-11-2010

*[Handwritten Signature]*  
2-11-10

सदस्य - प्रिनसिपल

*[Handwritten Signature]*  
23-11-10

सहायक प्रिन्सिपल

पोखर

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

मालती सिंह

रामचन्द्र

विद्यावती

हुकूम चन्द

परमहंस

खरवार

खरवार

खरवार

खरवार

खरवार

खरवार

खरवार

प्रिनसिपल कर्ता

जिलान कर्ता

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

23/11/10

*[Handwritten Signature]*  
Manager

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur



## नियमावली

1. संस्था का नाम : पंचानन सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान
2. संस्था का पूरा पता : 31-ए. हुमायूँपुर दक्षिणी, ओवरब्रिज, पो0 मुख्य डाकघर  
तहशील-सदर, जिला-गोरखपुर (उ0 प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग -

### आजीवन सदस्य -

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 5001/- नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

### विशिष्ट सदस्य -

जो व्यक्ति संस्था के हित के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे और संस्था को 501/- वार्षिक चन्दध/सहयोग के रूप में निस्वार्थ भाव से देते रहेंगे वह संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे।

### सामान्य सदस्य-

जो व्यक्ति संस्था को 101/- रूपया नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य माना जायेगा।

### 5. सदस्यता की समाप्ति -

- (1) किसी सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर।
- (2) प्राणल या दिवालिया होने पर।
- (3) संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
- (4) त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव रखने पर पारित होने पर।
- (5) कमेटी द्वारा पारित नियमों के पालन न करने पर।
- (6) दण्डित होने पर।
- (7) सदस्यता शुल्क न देने पर।
- (8) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
- (9) पद का दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता करने पर।

### 6. संस्था के निम्न अंग होंगे -

अ)-साधारण सभा

ब)- प्रबन्धकारिणी समिति

क्रमशः.....2

*Bunmar*  
PRINCIPAL

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

सहायक प्रिन्सिपल

कां. सोसाइटीज तथा चिट्ठे  
गोरखपुर

*Manager*  
Manager

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur







(3)

4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अन्ताराष्ट्रीय, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था, व्यक्ति/व्यक्तियों से चन्दा, दान, उपहार ऋण व अनुदान प्राप्त करना।

5. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन व संशोधन किया जा सकता है।

कार्यकाल - प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से 5 वर्ष का होगा।

**10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य -**

**अध्यक्ष -**

1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. बैठकों को बुलाना एवं अनुमोदन करना।
4. किसी विवादग्रस्त मामले में अपना निर्णायक मत देना।

**उपाध्यक्ष-**

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों को सम्पादित करना।

**प्रबन्धक/सचिव-**

1. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना व सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. संस्था की चल एवं अचल सम्पत्ति का रख-रखाव करना।
3. कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना व बैठकों को बुलाना एवं अनुमोदन करना।
4. किसी भी सदस्य के आरोप सिद्ध होने पर सदस्यता से वंचित करना।
5. विलों एवं वाउचरों को हस्ताक्षर करना।
6. वर्ष के अन्त में आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना एवं उसे प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
7. समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों का रख-रखाव करना।
8. खर्च के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना तथा हिसाब-किताब से सम्बन्धित कैश बुक, आदि लिखना।
9. सदस्यों द्वारा गलत कार्य करने पर उन्हें दण्डित करना।
10. सदस्यों से चन्दा लेना व उनको रसीद काटकर देने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव का होगा। प्रबन्धक/सचिव द्वारा जारी की गयी रसीद ही मान्य होगी।
11. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा, दान, ऋण, अनुदान प्राप्त करना।
12. संस्था से सम्बन्धित समस्त मुकदमों की पैरवी करना व कार्यवाही रजिस्टर अपने पास
13. बैठकों का दिनांक, स्थान व समय निर्धारित करना, बैठक की अध्यक्षता करना।

क्रमशः.....4

*Bumar*  
PRINCIPAL

सहायक रजिस्ट्रार

कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष

गोरखपुर

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

*Manager*  
Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



(4)

14. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन व निलम्बन करना।
15. कर्मचारियों का वेतन देना।
16. सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद आदि का संचालन अपनी देख-रेख में करवाना।

उप प्रबन्धक/उप सचिव-

प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सीपे गये समस्त कार्यों को सम्पादित करना।

कोषाध्यक्ष -

1. संस्था के आय व्यय का लेखा-जोखा रखना।
2. वार्षिक आय व्यय का विवरण तैयार करना तथा साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना
3. समस्त लेख, अभिलेख, कैशबुक, पासबुक एवं लेजर का रख-रखाव करना।

11. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया - संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में किया जायेगा।

12. संस्था का कोष - संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा होगा, जिसे प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा।

13. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट)-

संस्था के वर्ष भर के आय-व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायगा।

14. संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व -

अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा उसके विरुद्ध होने वाले मुकदमें अपने जनपदीय न्यायालय में सुलझाये जायेंगे एवं समस्त मुकदमों (वाद-प्रतिवादों) की पैरवी प्रबन्धक/सचिव द्वारा किया जायेगा।

15. संस्था के अभिलेख-

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर,
3. स्टॉक रजिस्टर,
4. कैश बुक
5. सूचना रजिस्टर

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक : 02/11/2020  
!! सत्य प्रतिलिपि !!

हस्ताक्षर

प्रत्य - प्रतिलिपि

हस्ताक्षर

Buman  
PRINCIPAL

महायज  
प्रबन्धक

मालती खेर

Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

प्रतिलिपि कर्ता  
मिचान कर्ता

23/11/20

23/11/20





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

44AB 772803

१४ जनरल स्टाफ क्वार्टर 'पंचमन सिंह' वीरता एवं जन कल्याण संस्थान  
 ३-ए, हुमापूर दक्षिण, श्री वरविज पी० मुख्य अफसर हाउसिंग  
 जिला हुमापूर काईल न० जी० ५७६३४  
 संशोधित निपमायती साव संलग्न है



*Rumor*  
 PRINCIPAL  
 P.N. National Public School,  
 Jungle Dhushan, Gorakhpur

*H*  
 सहायक एचिस्ट्राफ  
 हुमा सोसाइटीज तथा चिट्ठे  
 ४-२ गोरखपुर  
 24/2/12

*Singh*  
 Manager  
 P.N. National Public School  
 Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



संशोधित नियमावली

- 1 संस्था का नाम - पंचानन सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान
- 2 संस्था का पता - 31-1, हुमायुँपुर दक्षिणी, ओवरब्रिज, पोस्ट-मुख्य डाकघर, ताहरील-सदर जिला-गोरखपुर (उ0प्र0)
- 3 संस्था का कार्यक्षेत्र - सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
- 4 संस्था के उद्देश्य - स्मृतिपत्र के अनुसार
- 5 संस्था की सदस्यता व सदस्यता का वर्ग -

आजीवन सदस्य-

जो व्यक्ति संस्था को एक बार में 5001/- नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

विशिष्ट सदस्य-

जो व्यक्ति संस्था के हित के लिये सदैव कार्यरत रहेंगे और संस्था को 501/- वार्षिक चन्दा/सहयोग के रूप में निःस्वार्थ भाव से देते रहेंगे वह संस्था के विशिष्ट सदस्य होंगे।

सामान्य सदस्य -

जो व्यक्ति संस्था को 101/- रु0 नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का सामान्य सदस्य माना जायेगा।

सदस्यता की समाप्ति-

1. किसी सदस्य की अचानक मृत्यु होने पर।
2. पागल या दिवालिया होने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. सदस्यता शुल्क न देने पर।
5. त्यागपत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकृत होने पर।
6. कमेटी द्वारा पारित नियुक्तियों के पालन न करने पर।
7. दण्डित होने पर।
8. लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर
9. पद का दुरुपयोग एवं वित्तीय अनियमितता करने पर।

7 संस्था के निम्न अंग होंगे -

- क, साधारण सभा
- ख, प्रबन्धकारिणी समिति

8 साधारण सभा-

- क-गठन- संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।
- ख-बैठक- साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी। आवश्यकता प डने पर विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है।
- ग-सूचना अवधि- साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सदस्यों को दे दी जायेगी।
- साधारण सभा के बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 होगा।



ममलाल सिंह

मालती सिंह

हरेश्वर सिंह

*Bunwar*  
PRINCIPAL

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

तहासक रजिस्ट्रार  
जं. सोसाइटीज तथा शिक्षण  
गंमन-गोरखपुर

Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



30-विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि -

साधारण सभा बैठक में वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार होगा।

साधारण सभा के कर्त्तव्य-

1. प्रबन्धकारिणी समिति का गठन करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किया गया गत वर्षों का आय-व्यय स्वीकृत करना। तथा आगामी वर्ष के लिये व्यय की संस्तुति प्रदान करना।
3. आय-व्यय निरीक्षण के लिये निरीक्षक की नियुक्ति करना।
4. संस्था के पूर्व अभिलेखों पर अधिकार रखना।
5. सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकृत करना तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना।
6. समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति गुप्त मतदान के द्वारा करायेगी।

8. प्रबन्धकारिणी समिति -

अ- गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा तथा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 5 पदाधिकारी व 4 सदस्य होंगे और कुल की संख्या 9 की होगी।

ख-बैठक- प्रबन्धकारिणी समिति सामान्य बैठक वर्ष में दो बार अवश्य होगी। और विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर किभी भी बुलायी जा सकती है।

ग-सूचना अवधि- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सदस्यों को देना आवश्यक होगा।

घ-गणपूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति के बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

र- रिक्त स्थानों की पूर्ति- रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर होगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्त्तव्य -

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी गैरसरकारी संस्थाओं राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था, व्यक्ति / व्यक्तियों से चन्दा, दान, उपहार ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
5. प्रबन्धसमिति द्वारा प्रस्ताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन व संशोधन किया जा सकता है।

सी0वी0यस0ई0 के प्रतिबन्ध

1. संस्था को समय समय पर नवीनीकृत करना।
2. विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के भेधावी बच्चों में लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / वेसिस शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क नहीं लिया जायेगा।



ममला सिंह

मालती सिंह

हरशक्ति

Rumar  
PRINCIPAL

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

तहासक रसिस्ट्राए  
सोसाइटीज तथा चिट्ठे  
ब.प्र. गोरखपुर

Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



- 4 संस्था द्वारा सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्यक्ता सेन्ट्रल बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, नई दिल्ली / काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिन, नई दिल्ली से प्राप्त होती हो तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्यक्ता प्राप्त होने की तिथि से परिषद की मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- 5 संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा भत्तों नहीं दिये जायेगे।
- 6 कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
- 7 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उसका पालन करेगी।
- 8 विद्यालय का रिकार्ड तिर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा इसके लिए सम्यन्धित विभाग को प्रबन्धसमिति के द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से 5 वर्ष का होगा।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य-  
अध्यक्ष-

1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।
3. बैठकों को बुलाना एवं अनुमोदन करना।
4. किसी विवादग्रस्त मामले में अपना निर्णायक मत देना।

उपाध्यक्ष-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों को सम्पादित करना।

प्रबन्धक / सचिव-

1. संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना व सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. संस्था की चल एवं अवल सम्पत्ति का रखरखाव करना।
3. कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना व बैठकों को बुलाना एवं अनुमोदन करना।
4. किसी भी सदस्य के आरोप सिद्ध होने पर सदस्यता से वंचित करना।

Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



कमला सिंह

आमली सिंह

हरिहर सिंह

Ruman  
PRINCIPAL  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

सहायक निदेशक  
राज्य शिक्षा विभाग  
गोरखपुर



(५)

5. बिलों एवं वाउचरों को हरताहार करना।
6. वर्ष के अन्त में आय-व्यय का लेखा-जोखा तैयार करना एवं उसे प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
7. समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों का रखरखाव करना।
8. खर्चों के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना तथा हिसाब किताब से सम्बन्धित कौश बुक आदि लिखना।
9. सदस्यों द्वारा गलत कार्य करने पर उन्हें दण्डित करना।
10. सदस्यों से चन्दा लेना व उनको रसीद काटकर देपे का अधिकार प्रबन्धक/सचिव का होगा। प्रबन्धक/सचिव द्वारा जारी की गयी रसीद ही मान्य होगी।
11. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं से चन्दा दान ऋण, अनुदान प्राप्त करना।
12. संस्था से सम्बन्धित समस्त मुकदमों की पैरवी करना व कार्यवाही रजिस्टर अपने पास रखना।
13. बैठकों का दिनांक, स्थान व समय निर्धारित करना।
14. कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन व निलम्बन करना।
15. कर्मचारियों को वेतन देना।
16. सांस्कृतिक कार्यक्रम खेलकूद आदि का संचालन अपनी देख रेख में करवाना।

उपप्रबन्धक/उपसचिव:-

प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उसके द्वारा सौंपे गये समस्त कार्यों को सम्पादित करना।

कोषाध्यक्ष:-

1. संस्था के आय-व्यय का लेखा-जोखा रखना।
2. वार्षिक आय-व्यय का विवरण तैयार करना तथा साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
3. समस्त लेख, अभिलेख, कौशबुक, पासबुक एवं लेजर का रखरखाव करना।

11 संस्था का कोष:-

संस्था का कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट-आफिस में जमा किया जायेगा जिसका संचालन संयुक्त रूप से प्रबन्धक व सचिव एवं कोषाध्यक्ष द्वारा संचालित किया जायेगा।

12 संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-

संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में किया जायेगा।

13 संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा

संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा किसी मान्यता प्राप्त आडिटर से कराया जायेगा।



कमला सिंह

माननीय सचिव

होमरूम

*Ruman*  
PRINCIPAL  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

तहासक रजिस्ट्रार  
19 सीबाइटीम हटा पिडू  
गोरखपुर

Manager  
P.N. National Public School  
Jungle



(3)

**14 संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-**

अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अपने जनपदीय न्यायालय में सुलझाये जायेगे। (वाद प्रतिवादों की पैरवी) प्रबन्धक / राचित द्वारा किया जायेगा।

**15 संस्था के अभिलेख**

- 1 सदस्यता रजिस्टर
- 2 कार्यवाही रजिस्टर
- 3 स्टाक रजिस्टर
- 4 कैशबुक
- 2 सूचना पंजिका

**16 संस्था के विद्यतन और विद्यतित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही**

संस्थाओं के विद्यतन और विद्यतित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटी अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।



दिनांक 30-1-2012

हस्ताक्षर

*[Handwritten signature]*

भन्व - प्रतिलिपि

सहायक निदेशक  
 प्र. सोसाइटीज तथा पिटर  
 जंगल प्र. गोरखपुर  
 24/1/12

कमलासिंह

मामती सिंह

होस्टल

प्रतिलिपि फर्ती

मिलान फर्ती 24/1/12

*[Handwritten signature]*  
 PRINCIPAL  
 P.N. National Public School  
 Jungle Dhushan, Gorakhpur

*[Handwritten signature]*  
 P.N. National Public School  
 Jungle Dhushan, Gorakhpur





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


48AE 716982

जनरल स्टाम्प पेपर. पंचायतन सिटि सिधा एवं जन कल्याण संस्थान

जिला गोरखपुर संसद सं. 47638

पंचायत संसद के सामे प्रस्तुत है।  
दि 16/3/2021

एक रुपय के बराबर है।



*Rumor*

PRINCIPAL  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

A

सहायक रजिस्ट्रार  
फॉर्स, सोसाइटीज एव विट्स  
गोरखपुर (उ० प्र०)  
16/3/2021

*Deepa*  
Manager

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AE 716964

जनरल स्टाम्प पेपर... प्रत्यागन लिखित शिक्षा रूपे जन कल्याण संस्थान  
जिला... गोरखपुर... नं०... ७६३४  
...के साथ संलग्न है।  
मुद्रित दिनांक २०२१

यस जमिंदार बंजीकृत नहीं है।



*Ruman*  
PRINCIPAL  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

*A*  
सहायक रजिस्ट्रार  
फसल भोसाइटीज एब विट्स  
गोरखपुर (उ० प्र०)  
16-3-2021

*Dypt*  
Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AE 716984

जनरल सैन्य पेट्टर. पंचायत शिक्षण विद्यालय जमवाल्पाठ क्षेत्र-आम  
 जिला.. गोरखपुर जमवाल्पाठ सं. ०. ६३४... ६१७६३४  
 युवाओं की कलाकर्मों को साय सलमन है।  
 दि. ०३/०५/२०२०



यह अभिलेख पंजीकृत नहीं है।

*Burner*  
**PRINCIPAL**  
 P.N. National Public School  
 Jungle Dhushan, Gorakhpur

*A*  
 सहायक रजिस्ट्रार  
 फार्मस. सोसाइटीज एव विद्वत्  
 गोरखपुर (उ० प्र०)  
 16-3-2021


*Dyugal*  
 Manager  
 P.N. National Public School  
 Jungle Dhushan, Road Gorakhpur



पंचानन सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान 31-ए, हुमायूपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज पो0 मुख्य डाकघर तहसील-  
सदर जनपद- गोरखपुर की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष:-2020.21

क्र०सं०	नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री ओमप्रकाश सिंह पुत्र श्री पंचानन सिंह	31-ए, हुमायूपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज रोड जनपद गोरखपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री हरिहर सिंह पुत्र श्री स्वामीनाथ सिंह	ग्राम पिपरा मदन गोपाल चोला महुआबारी जनपद देवरिया	उपाध्यक्ष	व्यवसाय
3.	श्री दीपक सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश सिंह	31-ए, हुमायूपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज रोड जनपद गोरखपुर	प्रबन्धक/सचिव	समाजसेवा
4.	श्री रमेश सिंह पुत्र श्री पंचानन सिंह	ग्राम बेलवा बुजुर्ग पो0 महआ कारखाना जनपद देवरिया	उपप्रबन्धक/ उपसचिव	समाजसेवा
5.	श्रीमती मालती सिंह पत्नी श्री नथुनी सिंह	ग्राम व पो0 लठिया जनपद कुशीनगर	कोषाध्यक्ष	गृहिणी
6.	डा० रामनरेश सिंह पुत्र श्री कुमार सिंह	मणिस विहार कस्बा जनपद गोरखपुर	सदस्य	भूतपूर्व सैनिक
7.	श्रीमती कमला सिंह पत्नी श्री ओमप्रकाश सिंह	31-ए, हुमायूपुर दक्षिणी ओवर प्रदे शब्रिगे रोड जनपद गोरखपुर	सदस्य	गृहिणी
8.	श्रीमती विद्यावती सिंह पत्नी श्री गंगादयाल सिंह	ग्राम व पो0 लठिया जनपद कुशीनगर	सदस्य	गृहिणी
9.	श्री हुकुमचन्द खरवार पुत्र श्री परमहंस खरवार	ग्राम रामपुर मीर पो0 पतरेंगवा जनपद महाराजगंज	सदस्य	व्यवसाय

गुरु जन्मिने  
गुरु जी



कमला सिंह  
मालती सिंह

रमेश सिंह  
सत्य - प्रतिलिपि  
प्रमाणिक रजिस्ट्रार  
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्ठस  
प्र० गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता...  
मिलान कर्ता...  
Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur




# कार्यवाही की पुष्टि

आज दिनांक 03.01.2021 को पूर्व सूचना के अनुसार साधारण सभा की एक बैठक प्रचारित सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान 31-ए, हुमायपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज पो0 मुख्य डाकघर तहसील- सदर जनापद- गोरखपुर नामक संस्था के प्रांगण में सांय के 5.30 बजे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न की गई। कोरम पूरा रहा। कार्यवाही प्रारम्भ की गई-

प्रस्ताव सं0-1

पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार-

अध्यक्ष महोदय की पिछली कार्यवाही दिनांक 15.08.2016 व 30.10.2020 की कार्यवाही को पढकर सुनाया जिसकी पुष्टि सर्वसम्मति से सभी उपस्थित लोगों ने किया।



*Handwritten signatures and names:*  
रमेशा सिंह  
मालती सिंह  
रमेशा सिंह

अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण बैठक की कार्यवाही सर्वसम्मति से समाप्त की गई।

*Handwritten signature:* हरिबहादुर

*Handwritten signature:* Kumar  
PRINCIPAL  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

सत्य - प्रतिलिपि  
सहायक रजिस्ट्रार  
फर्म्स सोसाइटीज तथा विद्स  
पो0 प्र0 गोरखपुर

*Handwritten signature:* Manager  
प्रतिलिपि कर्ता...  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur  
कर्ता... 16/03/2021




चुनाव की कार्यवाही  
 आज दिनांक 30.10.2020 को पूर्व सूचना के अनुसार साधारण सभा की एक बैठक पंचानन सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान 31-ए, हुमायूपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज पो0 मुख्य डाकघर तहसील- सदर जनपद गोरखपुर के संस्था के प्रांगण में अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पूर्वाहन के 11.00 बजे सम्पन्न की गई। कोरस पूरा रखा कार्यवाही प्रारम्भ की गई-

प्रस्ताव सं0-1  
 पिछली कार्यवाही की पुष्टि पर विचार-

अध्यक्ष महोदय ने पिछली कार्यवाही को पढकर सुनाया जिसकी पुष्टि सर्व सम्मति से सभी उपस्थित लोगों ने किया।

प्रस्ताव सं0-2  
 प्रबन्ध समिति के चुनाव पर विचार-

अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में बैठक प्रारम्भ हुई तथा यह प्रस्ताव रखा कि संस्था की प्रबन्ध समिति का कार्यकाल पूरा हो गया है इसलिए प्रबन्ध समिति का चुनाव कराना आवश्यक है। जिसका समर्थन सभी उपस्थित लोगों ने किया अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संस्था की वर्तमान प्रबन्ध समिति निम्न प्रकार से होगी।



- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. श्री ओमप्रकाश सिंह     | अध्यक्ष           |
| 2. श्री हरिहर सिंह        | उपाध्यक्ष         |
| 3. श्री दीपक सिंह         | प्रबन्धक/सचिव     |
| 4. श्री रमेश सिंह         | उपप्रबन्धक/उपसचिव |
| 5. श्रीमती मालती सिंह     | कोषाध्यक्ष        |
| 6. श्री डा0 रामनरेश सिंह  | सदस्य             |
| 7. श्रीमती कमला सिंह      | सदस्य             |
| 8. श्रीमती विद्यावती सिंह | सदस्य             |
| 9. श्री हुकुमचन्द खरवार   | सदस्य             |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature: मालती सिंह*

*Handwritten signature: कमला सिंह*

*Handwritten signature: रमेश सिंह*

*Handwritten signature: हुकुमचन्द खरवार*

जिसका समर्थन सभी उपस्थित लोगों ने किया। अन्य कोई प्रस्ताव न होने के कारण बैठक की कार्यवाही सर्वसम्मति से समाप्त की गई।

*Handwritten signature: Sumon*  
 PRINCIPAL

सत्य - प्रतिलिपि  
 सहायक रजिस्ट्रार  
 कर्म सोसाइटीज तथा चिट्ठे  
 प्र० गोरखपुर

*Handwritten signature: Dpt*  
 Manager  
 P.N. National Public School  
 Jungle Dhushan, Road Gorakhpur  
 प्रतिलिपि कर्ता...  
 कर्ता... 1.10.2021

P.N. National Public School  
 Jungle Dhushan, Gorakhpur



प्रासप-9  
निगम B(2) देखिये

दिनांक 18/02/2021

संख्या 02220/2020-2021



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र  
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या:R/GOR/17114/2020-2021

पत्रावली संख्या:G-47638

दिनांक:2010-2011

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि पंचासन सिंह शिक्षा एवं जन कल्याण संस्थान, 31-ए हुमायुपुर दक्षिणी ओवर ब्रिज पो0- मुख्य डाकघर तहसील- सदर जनपद- गोरखपुर, गोरखपुर, 273001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1108/2010-2011 दिनांक-03/11/2010 को दिनांक-03/11/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1200 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By  
(AJAY KUMAR SHAHI)

312B4F4793C97A2B162F6F771F04D43EDB573E5B

Date: 18/02/2021 4:45:20 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-18/02/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,  
उत्तर प्रदेश।

*Bumari*  
PRINCIPAL  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Gorakhpur

*Deepika*  
Manager  
P.N. National Public School  
Jungle Dhushan, Road Gorakhpur

18-Feb